

APPLY ONLINE

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड

“एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा व भूमि विकास कार्यक्रम”

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में रजिस्टर्ड निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एकीकृत कृषि, डेयरी, ऊर्जा व भूमि विकास कार्यक्रम निगम के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। डेयरी कार्यक्रम के अंतर्गत निगम के उत्पाद “स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम” के विक्रय एवं डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के साथ प्रति कैन एक पशुपालक को एक लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क एवं डिस्ट्रीब्यूटर को 5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क (एक वर्ष के लिए) प्रदान करने हेतु एवं एकीकृत कृषि, सोलर ऊर्जा, बंजर भूमि विकास व अन्य कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने एवं किसानों व पशुपालकों को कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाने व निगम की अन्य आवासीय योजनाओं को संचालित करने हेतु रिक्त रहे पदों पर योग्य उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं।

1. इस सीधी भर्ती के लिए परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा आप मोबाइल पर /कंप्यूटर सेन्टर/ साइबर कैफे से दे सकेंगे।
2. ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक व समय की सूचना आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर इस भर्ती की अंतिम तिथि से आगामी 30 दिन बाद भेज दी जाएगी।
3. परीक्षा की दिनांक व समय की सूचना के साथ आपको ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा देने का तरीका व अन्य विस्तृत जानकारी ईमेल पर भेजी जायेगी। आवेदक उसी के अनुरूप ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करे। ऑनलाइन परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों को कार्य प्रणाली से अवगत करवाने के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन/ ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के पश्चात नियुक्ति दी जायेगी।
5. नियुक्ति आपके द्वारा आवेदन पत्र में चुने गए राज्य/जिला/तहसील के अनुसार दी जायेगी।

[ऑनलाइन आवेदन के लिये क्लिक करें](#)

[अधिक जानकारी के लिये क्लिक करें](#)

